

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 451]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 1966/पौष 10, 1888

No. 451]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 1966/PAUSA 10, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 31st December 1966

S.O. 4045.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 40 of the Defence of India Act, 1962 (51 of 1962), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by rule 57 of the Defence of India Rules, 1962, shall, in relation to the Mizo Hills District, be exercised also by the Central Government Liaison Officer for Mizo Hills District:

Provided that in the exercise of such powers the said officer shall comply with such general or special directions as the Central Government may from time to time issue.

[No. D. 20454/66-Poll. I.A.]

ASOKA SEN, Jt. Secy.

(1779)

